

OBL:HO:SEC:00:

New Delhi : 18.05.2022

BSE Limited
Corporate Relation Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunga Building, Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai-400 051

Stock Code - 530365**Stock Code: ORIENTBELL****Sub: Newspaper Advertisements - Audited Financial Results of the company for the 4th Quarter and year ended March 31, 2022**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisements of Audited Financial Results of the company for the 4th Quarter and year ended March 31, 2022 published in the following newspapers on 18th May, 2022:

1. English Daily "Business Standard" Mumbai edition, (**Annexure - "A"**)
2. English Daily "Business Standard" Delhi edition, (**Annexure - "B"**)
3. Hindi Daily "Business Standard" Delhi edition, (**Annexure - "C"**)

The same shall also be available under Investors Section of the Company's website www.orientbell.com.

This is for your information and record.

Yours faithfully,
for Orient Bell Limited


Yogesh Mendiratta

Company Secretary & Head - Legal

Encl: as above

Orient Bell Limited

PUBLIC NOTICE
 NOTICE is hereby given that Mr. Kamikar Shankarrao Rasne, was the protected tenant of Room no. 11, 1st floor, 31, Janwala Building, Sadadhik Cross Lane, Mumbai - 400004, C.S no. 529 Origan Division (hereinafter referred to as the "said tenanted premises"). He died on 13.03.2011, Mrs. Kumudini Kamikar Rasne his wife died on 26.02.2021 and their son Vinayak Kamikar Rasne died on 26.04.2002 leaving behind Vijaya Vinod Shama (maiden name Vijaya Kamikar Rasne) and Sheetal Shallesh Shah (maiden name Ratnamala Kamikar Rasne) as their only legal heirs of Class I as per the law of inheritance.
ALL PERSONS having any claim against or in respect of the said tenanted premises or any part thereof by way of lease, sale, exchange, option, mortgage, charge, gift, trust, inheritance, possession, lease, lien, option or otherwise whatsoever are hereby requested to inform the same in writing supported with the original documents to the undersigned within a period of 15 days from the date of the publication of this notice, failing which, the claim or claims, if any, of such person or persons shall be considered to have been waived and/or abandoned.
 Place: Mumbai
 Date: 18/05/2022
Sd/-
Manish Malpani
 Advocate for the Purchasers

PUBLIC NOTICE
 NOTICE is hereby given that my client Heetu chemicals & Alkalies Ltd. is an owner of Unit no 305, Admeasuring 875 Sq. Ft. built up area and a loft admeasuring 125 Sq. ft. of built up area on the 3rd floor and one car parking space bearing no. 118 admeasuring 120 sq. ft. of built up area on the 1st floor of the podium of the building known as "Konark Shram" situated, lying and being at 156, Tardeo Road, Mumbai 400034. The following original deeds/documents in respect of the said unit are missing.
 1. Original Agreement for Sale and Transfer of Shares dated 3rd March, 2000 executed between Mr. Mahendra Chagpal Karia and Mr. Ramesh Nanji Thakkar, Mr. Mahesh Nanji Thakkar and Mr. Mathuradas Nanji Thakkar.
 2. Original Possession letter dated 11th August, 2008 issued by Ramesh N. Thakkar, Mahesh N. Thakkar and Mathuradas N. Thakkar in favor of Ashish R. Merchant and Rozina A.
 Any person/s found the said original Agreement for sale and/or possession letter is /are requested to contact and handover the same to the undersigned. All persons are hereby further informed and requested to take notice of the aforesaid and are hereby warned not to create any third party rights or obtain loan or enter into any kind of deal on the basis of aforesaid document or property. Any person/s doing so will do so at his / her own risk as to cost and consequences thereof and such acts/transactions shall not be binding upon my client.
 Any person having any claim in, to or over the above land or any part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, trust, inheritance, possession, lease, sub-lease, assignment, transfer, tenancy, sub-tenancy, bequest, succession, license, maintenance, lis-pendens, loan, advances, lien, pledge, orders, judgments or decrees passed or issued by any Court, Tax or revenue or statutory authorities, attachment, settlement or otherwise whatsoever is hereby required to make the same known in writing with valid documentary evidence to the undersigned at B/106, 1st Floor, Sayeed Manzil CHS Ltd, Pandit Dindayal Nagar, opp. Bassein Catholic Bank Ltd. Manikpur, Vasai (W), Dist. Palghar - 401202 within 14 days from the date hereof, otherwise it will be presumed that there do not exist any claims and the same, if any, will be considered as waived or abandoned and my client will proceed with the loan transaction on the above flat. VASAI DATED THIS 18th May 2022.
Sd/-
David S. Dabre
 Advocate High Court, Bombay

PUBLIC NOTICE
 NOTICE is hereby given that Mr. Pervez Ahmed Abdul Aziz Shaikh and Mr. Abdul Khaliq Abdul Aziz Ishkey (intending Sellers) having their residence at Embassy Apartment, Flat No. 24, 2nd floor, 291/D, Jahangir Boman Behram Marg, Mumbai Central, Mumbai - 400008. Have agreed to sell, assign and transfer the Flat premises more particularly described in the Scheduled written hereunder and hereinafter referred to as said Flat and have represented to me that they are the sole and absolute owners of the same and their title to the said Flat and said shares are clear and marketable and free from all claim in the nature of agreement, sale, lien, lease, easement, mortgage or otherwise any objection to and/ or upon the said property and said shares or any part thereof is/are called upon to inform the same to the undersigned in writing with necessary proof of supporting documents within 15 days of the publication of this NOTICE failing which it shall be presumed that there is no claim or objection of whatsoever by any Person or Entity on the schedule property and sale shall be completed. After time period of 15 days no claim or objection of whatever nature shall be entertained in respect of schedule property.
SCHEDULE
Description of the property
 5 (Five) fully paid up shares of Rs. 50/- each bearing Distinctive Nos. 46 to 50 (both inclusive) under Share Certificate No. 10th dated 15th August 1981, issued by The Bellasis Co Operative Housing Society Ltd. being the said shares for Flat No. 24 on the 2nd floor admeasuring an area about 576 sq. ft. (Built up area) in the Building known as "Embassy Apartment" situated 291/D, Jahangir Boman Behram Marg, Mumbai Central, Mumbai - 400008, Maharashtra Zone/sub 8/68 Survey No. 8453 (part), Cadastral Survey No. 246 of Tardeo Division in the Registration District of Mumbai; Dated this 18th day of May, 2022
Sd/-
Ashutosh Dube
 Advocate High Court for the Purchaser
 306, Venkatesh Chambers,
 Ghanshyam Talwar Marg, Fort,
 Mumbai - 400001.

SNOWMAN LOGISTICS LIMITED
 CIN: L15122MH1993PLC285633 | Regd. Office: Plot No. M8, Taloja Industrial Area, MIDC, Raigad, Navi Mumbai, Maharashtra - 410206 | Tel: +91 22 39272004 |
 Corporate Office: No. 54, Old Madras Road, Virgonagar, Bengaluru 560 049
 Tel: +91 80 39939500 | Fax: +91 80 39939500
 Email: investorrelations@snowman.in | Website: www.snowman.in

NOTICE
 Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (hereinafter referred to as "the Rules") and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications thereunder, as amended from time to time (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force), General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively read with other relevant circulars, including General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Snowman Logistics Limited (hereinafter referred to as "the Company") seeks approval of the Members through postal ballot by voting through electronic means (remote e-voting) for the following business.

1. Special Resolution- To approve the appointment of Mrs. Vanita Yadav (DIN: 09449130) as an Independent Director in terms of Section 149 of the Companies Act, 2013.

In accordance with the MCA Circulars, this Postal Ballot Notice ("Notice"), indicating, inter alia, the process and manner of remote e-voting, has been sent on Tuesday, May 17, 2022 through electronic mode to the Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on May 13, 2022 ("cut-off date") received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company / Depositories. A person who is not a Member as on the cut-off date shall treat this notice for information purpose only.

The hard copies of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot, in accordance with the exemptions granted by the MCA Circulars. Members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Company has engaged the services of Link Intime India Pvt Ltd ("Link Intime") for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The e-voting period commences on Wednesday, May 18, 2022, (9:00 AM IST) and ends on Saturday, June 18, 2022 (5:00 PM IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime for voting thereafter. The detailed instructions for e-voting are provided as part of the Notice which the Members are requested to read carefully before casting vote.

The Notice along with the Explanatory Statement thereto can be downloaded from the Company's website at www.snowman.in. The same is also available on the website of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Board of Directors has appointed Mr. Nagendra D Rao, Practicing Company Secretary (Membership No. 5553, COP No. 7731), as the scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The voting results of the postal ballot shall be declared by the Company on or before June 21, 2022. The results would be displayed at the Registered/Corporate office of the Company, intimated to Link Intime and Stock Exchanges, where the Company's securities are listed and displayed on the Company's website www.snowman.in along with the scrutinizers' report

In case of any grievance/clarification in connection with the postal ballot including e-voting, members may contact Link Intime India Private Limited by e-mail at enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000 or write an email to the Company Secretary at investorrelations@snowman.in.

For Snowman Logistics Limited

A.M.Sundar

Place: Bangalore
 Date: May 18, 2022
 CFO, Company Secretary & Compliance Officer

FROM YOUR PHONE TO YOUR HOME

orientbell tiles

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(₹ In lakhs, except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/Mar/2022	31/Mar/2021	31/Mar/2022	31/Mar/2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from Operations	21,666	18,208	65,734	50,434
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax and Exceptional Items)	2,025	1,326	3,514	872
3	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax and after Exceptional Items)	2,025	1,326	3,514	1,143
4	Net Profit/ (Loss) for the period (After Tax and Exceptional Items)	1,653	826	3,219	768
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	1,620	884	3,267	875
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,443	1,435	1,443	1,435
7	Reserves (excluding revaluation reserve)			27,035	23,491
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations)				
	1. Basic (Amount in ₹)	11.48	5.77	22.36	5.36
	2. Diluted (Amount in ₹)	11.32	5.72	22.04	5.32

Notes:
 (i) Summarised Standalone Audited Financial Performance of the company is as under:- (₹ In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/Mar/2022	31/Mar/2021	31/Mar/2022	31/Mar/2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from Operations	21,666	18,208	65,734	50,434
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax and after Exceptional Items)	1,992	1,301	3,399	1,078
3	Net Profit/ (Loss) for the period (After Tax and Exceptional Items)	1,620	800	3,104	702
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	1,588	858	3,152	809

(ii) The above is an extract of the detailed format of quarterly standalone and consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly standalone and consolidated financial results is available on the stock exchange websites. (URL- www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website at https://www.orientbell.com.

(iii) The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on May 17, 2022. The Statutory auditor has expressed an unmodified audit opinion on these standalone and consolidated financial statements.

(iv) There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

(v) Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

(vi) The Board of Directors has, in its meeting held on May 17, 2022, recommended a dividend of 10% (i.e. ₹ 1/- per equity share of the face value of ₹ 10/- each) for the financial year 2021-22 which is subject to the shareholders approval in the forthcoming Annual General Meeting.

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited

Place : New Delhi
 Date : May 17, 2022
Madhur Daga
 Managing Director

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546
 Registered Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
 Corporate Office : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
 ☎ +91-11-4719100 | ✉ investor@orientbell.com | 🌐 www.orientbell.com



RAJ RADHE FINANCE LIMITED
 CIN No: U67120GJ1985PLC007576 • Regd Off:47, Shyamal Row House
 3/B, Nr. Shyamal Cross Roads, Ahmedabad - 380015
 Authorised officer: Meet Shah, Contact number: +91 63598 93919

SALE NOTICE FOR SALE OF HYPOTHECATED ASSETS & MORTGAGED PROPERTIES UNDER PROVISO TO RULE 6(2) & RULE 8 (6)

E-auction Sale Of Movable And Immovable Assets Under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002

Notice is hereby given to the effect that Raj Radhe Finance Limited is a company incorporated under the Companies Act 1956 read with section 2(m) of SARFAESI act 2002. Raj Radhe Finance Limited has acquired the entire outstanding debts of **M/s. Kingston Paptch Private Limited and others** along with underlying securities from State Bank of India. The said financial assets now stand assigned transferred and vested into Raj Radhe Finance Limited vide registered Assignment Agreement dated 19th April, 2022.

The Authorised officer of State Bank of India had taken over the physical possessions of the following Secured assets u/s. 13(4) of the SARFAESI Act, 2002 on 27th December, 2019 and which now stand assigned transferred and vested into Raj Radhe Finance Limited under the provisions of SARFAESI Act and Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The below mentioned Secured Assets will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis through E -Auction for recovery of outstanding amount of Rs. 56,66,30,215.07/- (Fifty Six Crore Sixty Six Lakhs Thirty Thousand Two Hundred Fifteen and Seven Paise Only) as on 30-04-2022 plus further contractual interest, penal interest, costs and expenses due to secured creditor.

It is hereby informed to General Public that we are going to conduct public E - Auction through website <https://sarfaesi.auctiontiger.net> on **30th June, 2022 at 12:00 p.m. to 2:00 p.m. with auto extension clause of 5 minutes provided shall be completed by 4:00 p.m.**

Sr. No.	Description of the property	Amount in rupees		Date and time of property inspection	Bid Increment value
		Reserve Price	EMD (10%)		
1	All that Non - Agricultural block no. 172 (New Survey/block no.759), land admeasuring about 19729 Sq. Mtrs situate lying and being at Mouje Sonasan, Taluka Prantij in the registration district and Sub District Sabarakantha (including buildings thereon) which is bounded as under :- EAST: By Panchayati Road of Sonasan Katvad; WEST: By Land of Patel Babubhai Mathurbhai and Patel Pashabhai Mathurbhai; NORTH: By Land of Bipinbhai Kantibhai Patel; SOUTH: By Land of Dahyabhai Shivabhai Patel Belonging to M/s. Kingston Paptch Private Limited along with Plant and Machinerics situated at above mentioned factory site / premises Belonging to M/s. Kingston Paptch Private Limited.	Rs. 13,25,00,000/-	Rs. 1,32,50,000/-	4th June, 2022 from 12:00 p.m. to 2:00 p.m.	Rs.5,00,000/-

We /bank have appropriated and given adjustment of Rs. 90,24,875/- (Ninety Lakhs Twenty Four Thousand Eight Hundred Seventy Five Only) towards the dues in the loan account.
***EMD to be remitted directly by RTGS / NEFT to the Bank Account Name: RAJ RADHE FIN LTD RECOVERY ACCOUNT, Bank Account No. 50200060765775 having Account with HDFC Bank with IFSC Code HDFC0000006.**
***Last date and time for submitting EMD: 27th June, 2022 till 04:00 p.m**
 For detailed terms and conditions of the sale please refer to www.rfl.in and https://sarfaesi.auctiontiger.net. All interested participants / bidders are requested to visit the website <http://sarfaesi.auctiontiger.net>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact M/s. e-Procurement Technologies Ltd.; Contact Mr. Ramprasad Sharma, Contact number: 8000023297/079-618136803. Email id: ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net

THIS IS ALSO A STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 6(2) & 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

[IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH VERSION AND ANY OTHER LANGUAGE VERSION OF THIS AUCTION NOTICE, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL.] SA No.228 of 2020 filed by borrowers is pending in DRT-I Ahmedabad. However there is no stay on SD/-
Authorised officer
Raj Radhe Finance Limited
 Date : 17/05/2022
 Place : Mumbai

HAVE A GOOD BUSINESS MORNING!

To book your copy,
SMS reachbs to 57575 or email us at order@bmail.in

Business Standard
 Insight Out

bsindia bsindia business-standard.com

Bank of India, Zonal Office, New Delhi Zone, "Star House", H-2, Connaught Circus, Middle/Outer Circle, Near PVR Plaza Hall, New Delhi - 110001. Phone No. 011-28844099

CORRIGENDUM

This is Corrigendum to publication in Business Standard (English & Hindi) dated 20.04.2022 for E-auction dated 25.05.2022 in the A/c Mrs. Chandra Kala Rai & Mr. Sudhir Kumar Rai, Bank of India, Dwarka Branch.

This corrigendum is being given to all concerned related to misprint in point 6 & 7 of Terms & Conditions listed for E-auction in the account of Mrs. Chandra Kala Rai & Mr. Sudhir Kumar Rai, Bank of India, Dwarka Branch. The same is being amended as to be read as follows:

Sr. No.	Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) Name	Terms & Conditions
1	Mrs. Chandra Kala Rai & Mr. Sudhir Kumar Rai	6) The intending bidders should deposit EMD i.e. 10% of Reserve Price online in the Global EMD Wallet along with the required documents / details well before 25.05.2022 on the eBkray portal i.e. https://www.mstcecommerce.com/auction/home/bapi/index.jsp for smooth participation in e-auction. The highest / successful bidder shall deposit 25% of the amount of bid/purchase money (including EMD already paid i.e. 10% of Reserve Price) immediately but not later than the next working day (during banking hours) of confirmation of the sale by the Authorized Officer after acceptance of bid by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which the EMD shall be forfeited. 7) The balance 75% of the bid/purchase money shall be payable on or before 15th day (during banking hours) of confirmation of the sale by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. In case of failure to deposit this balance amount within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited and the Authorized Officer / Bank will be at liberty to cancel the auction and conduct fresh auction.

Date : 17-05-2022, Place : New Delhi Authorised Officer, Bank of India

punjab national bank
...the name you can BANK upon!

CIRCLE SASTRA CENTRE, Noida, SH-12, 1st floor, Gama Shopping Centre, Sector-Gama-1, Greater Noida-201308 Distt. Gautam Budh Nagar, Tel. 0120-2322667

CORRIGENDUM

Attention is invited to the newspaper advertisement published in this newspaper on 06.05.2022 for E-auction of Properties in A/c of Mr. Ruchit Bhatnagar S/o Mr. O.P. Bhatnagar at (Sr. No. 2). We hereby notify the General Public that the properties of this account Auction dated 21-05-2022 stand Cancelled / Withdrawn. Rest Account/ details remain unchanged. Authorized Officer, Punjab National Bank

HSIIDC Announces e-Auction of Commercial Tower at Panipat

Registration and e-Auction Portal: www.hsiidc.bidx.in

Registration start date 18.05.2022
Closing of Registration/Deposit of EMD 21.06.2022 (upto 23:59 Hrs)

Estate	Site Description	Area (in sq. mtr.)	Res. Price Per Unit (₹. In Crore)	EMD 5 % (₹. in lakh)	Bid Increment (₹. in lakh)
Panipat (Export Complex)	Tower (Block-D)	1728	12	60	10

For site visit and details, please contact Mr. Vinod Katyal, Estate Manager-9416250758

Haryana State Industrial & Infrastructure Deve. Corp. Ltd. A State Government Undertaking
Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, Fax: 2590474, Website: hsiidc.org.in, E-mail: contactus@hsiidc.org.in, CIN: U29199HR1967SGC034545

45 YEARS OF

orientbell tiles

FROM YOUR PHONE TO YOUR HOME

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(₹ in lakhs, except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/Mar/2022	31/Mar/2021	31/Mar/2022	31/Mar/2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from Operations	21,666	18,208	65,734	50,434
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax and Exceptional Items)	2,025	1,326	3,514	872
3	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax and after Exceptional Items)	2,025	1,326	3,514	1,143
4	Net Profit/ (Loss) for the period (After Tax and Exceptional Items)	1,653	826	3,219	768
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	1,620	884	3,267	875
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,443	1,435	1,443	1,435
7	Reserves (excluding revaluation reserve)			27,035	23,491
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations)				
	1. Basic (Amount in ₹)	11.48	5.77	22.36	5.36
	2. Diluted (Amount in ₹)	11.32	5.72	22.04	5.32

Notes:
(i) Summarised Standalone Audited Financial Performance of the company is as under:- (₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31/Mar/2022	31/Mar/2021	31/Mar/2022	31/Mar/2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from Operations	21,666	18,208	65,734	50,434
2	Net Profit/ (Loss) for the period (Before Tax and after Exceptional Items)	1,992	1,301	3,399	1,078
3	Net Profit/ (Loss) for the period (After Tax and Exceptional Items)	1,620	800	3,104	702
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	1,588	858	3,152	809

(ii) The above is an extract of the detailed format of quarterly standalone and consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly standalone and consolidated financial results is available on the stock exchange websites.(URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website at <https://www.orientbell.com>.

(iii) The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on May 17, 2022. The Statutory auditor has expressed an unmodified audit opinion on these standalone and consolidated financial statements.

(iv) There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

(v) Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

(vi) The Board of Directors has, in its meeting held on May 17, 2022, recommended a dividend of 10% (i.e. ₹ 1/- per equity share of the face value of ₹ 10/- each) for the financial year 2021-22 which is subject to the shareholders approval in the forthcoming Annual General Meeting.

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited
Place : New Delhi
Date : May 17, 2022
Madhur Daga
Managing Director

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546
Registered Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
Corporate Office : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
☎ +91-11-47119100 | ✉ Investor@orientbell.com | 🌐 www.orientbell.com

#BSBankingShow



Decoding India's NPA situation with Tamal Bandopadhyay Consulting Editor, BS

WATCH TOMORROW'S EPISODE OF



THE Business Standard BANKING SHOW

Thursdays | 11am



The Business Standard Banking Show gives you the week's recap of key banking developments, interviews leading bankers on topical issues, simplifies banking jargons for you and more!



Visit mybs.in/BankingShow or scan this code to watch previous episodes

Business Standard
Insight Out

[bsindia](https://www.facebook.com/bsindia) [bsindia](https://twitter.com/bsindia)

business-standard.com

Toll Free - 1800 3004 2020
Give a missed call - 88888 99953
www.aadharhousing.com



AUM ₹ 14,778 Cr.
DISBURSEMENT (FY 22) ₹ 3,992 Cr.
LIVE ACCOUNTS 2,03,000+

PROFIT (FY 22) ₹ 445 Cr.
PRESENCE ACROSS 341 Branches & Offices 20 States & UTs

Statement of Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022

(Rs. in Lakh)

PARTICULARS	FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2022	FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2021	FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022	FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021
	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
	1 Total income from Operations	44,031	40,468	1,69,266
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14,718	11,838	56,710	43,228
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,718	11,838	56,710	43,228
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,497	9,302	44,465	33,997
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,534	9,341	44,518	34,033
6 Paid up Equity Share Capital	39,476	39,476	39,476	39,476
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,75,063	2,29,778	2,75,063	2,29,778
8 Securities Premium Account	1,33,700	1,33,700	1,33,700	1,33,700
9 Net worth	3,14,533	2,69,248	3,14,533	2,69,248
10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	10,67,459	10,37,447	10,67,459	10,37,447
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA
12 Debt Equity Ratio	3.39	3.85	3.39	3.85
13 Earnings Per Share (not annualised for three months ended periods)				
1. Basic:	2.91	2.36	11.26	8.61
2. Diluted:	2.82	2.29	10.92	8.36
14 Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15 Debenture Redemption Reserve	16,910	16,910	16,910	16,910
16 Debt Service Coverage Ratio	0.64	1.16	0.76	0.67
17 Interest Service Coverage Ratio	1.78	1.60	1.75	1.53

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Aadhar Housing Finance Limited www.aadharhousing.com
b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com
c) Previous periods / year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter ended March 31, 2022

For and on behalf of the Board of Directors of Aadhar Housing Finance Limited

Place : Mumbai
Date : May 16, 2022

Deo Shankar Tripathi
Managing Director & CEO
DIN 07153794

Aadhar Housing Finance Ltd., CIN: U66010KA1990PLC011409, Registered Office: No. 3, JVT Towers, 8th 'A' Main Road, Sampangiramanagar, Near Hudson Circle, Bengaluru- 560 027 | Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai - 400069 | Tel. No.: 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | Customer Care Toll Free: 1800 3004 2020 | Give a missed call: 88888 99953 | E-mail: customercare@aadharhousing.com | Website: www.aadharhousing.com

